



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1938 (श0)
(सं0 पटना 1007) पटना, शुक्रवार, 25 नवम्बर 2016

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर 2016

जी0एस0आर0 07, दिनांक 25 नवम्बर 2016—सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान एवं चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

1. खरीफ विपणन मौसम 2016-17 अन्तर्गत धान एवं चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाता है।

(i) राज्य अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य अभिकरण के रूप में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों को प्राधिकृत किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रमशः पंचायत/प्रखंड स्तर पर धान का क्रय किसानों से किया जाएगा एवं उस परिपेक्ष्य में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, उन जिलों में आपातकालीन स्थिति में पैक्सों/व्यापार मण्डलों से निगम द्वारा धान क्रय कर वाह्य जिला के पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से सी0एम0आर0 जमा कर मिलों से धान कुटाई कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र संख्या- 4(4)/2015-Py.1 दिनांक 09.06.2016 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के अन्तर्गत धान के साधारण एवं गेड "ए" का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :-

(रूपये प्रति क्वींटल)

| | | |
|-----|-----------|---------|
| धान | साधारण | 1470.00 |
| | ग्रेड "ए" | 1510.00 |

खरीफ विपणन मौसम 2016-17 अन्तर्गत कस्टम मिल राईस (CMR) का दर भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रभावी होगा।

(iv) खरीफ विपणन मौसम 2016-17 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम क्रमशः 15.11.2016 से मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों में तथा राज्य के अन्य जिलों में 01 दिसम्बर 2016 से प्रारम्भ होगा एवं 31.03.2017 तक प्रभावी रहेगा तथा सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्यक्रम 15 नवम्बर 2016 से 31.07.2017 तक प्रभावी रहेगा।

(v) यह अधिसूचना खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के अन्तर्गत दिनांक 15.11.2016 से 31.07.2017 तक के लिए प्रभावी होगी।

(सं0 प्र010 / ख0वि0अधि0-02 / 16-6530 / खाद्य)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 दीपक प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1007-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>